

२९

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १९३] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अप्रैल ६, १९७२/चैत्र १७, १८९४
No. 193] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1972/CHAITRA 17, 1894

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi the 6th April 1972

S.O. 264 (E). —In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Manipur Legislative Assembly.

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	H. Mashangthel	Phungcham, P. O. Ukhrul, Manipur East District Manipur.
2.	Salam Tombi	Kelshampat Thokchom Leikal, Imphal.

Place : Lamphelpat, Imphal

Date : 1st April, 1972.

(Sd) K. L. S. BAIDWAN,
Returning Officer.

[No. 318/MR/72.]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1972

एस०अ० 264(अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम, (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्ररूप 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिये]

मणिपुर की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1	एच० मशंगथई	फुगंचम, डाकघर उखरूल, जिला मणिपुर - पूर्व, मणिपुर।
2	सालिम टोम्बी	केईयामपट थोकचम नईक ई, ईम्फाल।

स्थान: लम्फेलपट, ईम्फाल

(ह०) के०एल०एन० वेदवान।

तारीख: 1 अप्रैल, 1972

रिटनिंग आफिसर।

[सं० 318/मणिपुर/72]

S.O. 265 (E) —In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961 the following is published for general information :—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Meghalaya Legislative Assembly.

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Sardis Wallang	Nongrim Hills, Shillong-3, Khasi Hills District.
2.	Showalese K. Shilla	Panaliar, Jowai P. O. Jaintia Hills District.

Place : Shillong

Date : 1st April, 1972.

(Sd.) N. C. HANDIQUE,
Returning Officer.

[No. 100/CS-MEGH/3/72.]

एस० आ० 265/(प्र).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्ररूप 7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

मेधाव्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1. सारहिम वालाग	नोंगमि पहाड़ी, शिलांग—3, ब्रासी पहाड़ी जिला	
2. शोबनेस के० शिल्पा	पतालियर, डाकघर जोवाई, जयन्तिसा पहाड़ी जिला।	

स्थान : शिलांग

(ह०) एन० सी० हंसीक्यू,

तारीख : 1 अप्रैल, 1972

रिटर्निंग आफिसर

[स० 100/रा०स०-मेधाव्य/3/72]

S.O. 266 (E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FROM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Rajasthan Legislative Assembly.

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1. Ganeshlal	.	Surajpol, Udaipur.
2. Gopilal Mittal	.	D-275-A, Todermal Marg, Benipark, Jaipur.
3. Jammalal Berwa	.	E-162, Gothwal Sadan, C-Scheme, Jaipur.
4. Laxmi Kumari	.	D-194, Benipark, Jaipur.
5. Vijai Singh	.	Vijai Palace, Makrana.
6. Sharwanlal	.	Mahubrahim, Teh. Hindon Distt. Sawai Madhopur.

Place : Sawai Mansingh Town Hall, Jaipur.

(Sd.) SURESH H. MATHUR,
Returning Officer.

Date : 1st April, 1972.

[No. 318 RJ '72.]

एस० नो० 266(अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम, (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सबसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्ररूप 7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिये]

राजस्थान की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	गणेशलाल	सूरजपोल, उदयपुर।
2.	गोपीलाल मित्तल	डी० 273-ए, टोडरमल मार्ग, बैनीपार्क, जयपुर।
3.	जमना लाल बेरया	ई०-162, गोधवाल सदन, सी० स्कीम, जयपुर।
4.	लक्ष्मी कुमारी	डी०-194, बैनी पार्क, जयपुर।
5.	विजय सिंह	विजय पैलेस, मकराना।
6.	श्रवणलाल	मुहुइब्राहीम, तहसील हिन्डोले, जिला सवाई- माधोपुर।

स्थान: सवाई मानसिंह टाऊन हॉल, जयपुर।

तारीख: 1 अप्रैल, 1972

(ह०) सुरेश एच० माथुर।

रिटर्निंग ऑफिसर।

[सं० 318/राज०/72]

S.O. 267 (E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Election Rules, 1961 the following is published for general information :—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Punjab Legislative Assembly.

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Amar Singh	C/o 53, MLA's Flats, Chandigarh.
	Sita Devi	WG-579-Swaraj Ganj, Jullundur City.
3.	Narinder Singh	V. & P. O. Chak Mahabhadar, Teh. Muktsar, District Ferozepur.
	Mohan Singh	V. & P. O. Jugiana, District Ludhiana.

Place: Punjab Vidhan Sabha
Secretariat,
Bhavan, Chandigarh-I.

(Sd.) KRISHAN SWAROOP,
Returning Officer.

[No. 318/PB/72.]

सं. प्रो० 267(प्र).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्रारूप 7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिए]

पंजाब की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1. अमर सिंह		भार्फत 53, एम० एल० ए० फ्लैट 4, चंडीगढ़ ।
2. सीता देवी		डब्लू० जी०-579, स्वराज गंज, जालन्धर सिटी ।
3. निन्द्र सिंह		ग्राम तथा डाकघर चक्र महाभावर, तहसील, मुक्तसर, जिला फिरोजपुर ।
4. मोहन सिंह		ग्राम तथा डाकघर जुगिया T, जिला लुधियाना ।

स्थान : पंजाब विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, चण्डीगढ़ ।

तारीख : 1 अप्रैल, 1972

(ह०) कृष्ण स्वरूप,
रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० 318/पंजाब/72]

S.O. 268 (E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information:—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10 (1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Mysore Legislative Assembly

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	H. S. Narasiah	23, Car Street, Ulsoor, Bangalore.—
2.	M. D. Narayan	Koppa Town, Chikkamagalur District.
3.	T. A. Pal	8/163, Manipal, Udipi, South Kanara.
4.	Maqsood Ali Khan	49, Hospital Road, Bangalore-1.
5.	Veerendra Patil.	381, XIII Cross, Sadashivanagar, Bangalore-6.

Place: Bangalore.

Date : 1-4-1972.

(Sd.) K.S. Thimmappa Gowda,
Returning Officer.

[No. 318/MY/72.]

एस० आ० 268 (घ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनार्थ किया जाता है :

प्रका 7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम, 10 (1) देखिए]

मैसूर की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1. एच० एस० नरसय्या		23, कार स्ट्रीट, उलसूर, बंगलौर ।
2. एम० बी० नारायण		कोप्पा टाउन, चिकमगलूर, जिला ।
3. टी० ए० पार्थ		8/163, मनीपाल, उवीपी, दक्षिण कनारा ।
4. मकसूब अली खां		49, होस्पिटल रोड, बंगलौर -1
5. बीरेन्द्र पाटिल		381, XIII, कस सदाशिव नगर, बंगलौर

स्थान : बंगलौर

तारीख : 31-4-1972

(ह०) के० एस० धीम्माम्पा मोबदा,
रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० 318/मैसूर/72]

S.O. 269(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information:—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10 (1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1		3
1.	Keshoprasad Harihar Prasad	Fafadeeh, Raipur, M.P.
2.	Charanlal Shahu "Jotishi"	Advocate, Raipur, M.P.
3.	Nand Kishore	Advocate, Bilaspur, M.P.
4.	Nand Kishore Bhatta	Bhatta Mohalla, Shajapur, M.P.
5.	Bhupendra Kumar Sethi	Binod Bhavan, Ujjain, M.P.
6.	Mahendra Bahadur Singh	Post Saraipali, Distt. Raipur, M.P.
7.	Vidyawati	Toria House, Post Chhatarpur, Distt. Chhatarpur, M.P.
8.	Virendra Kumar Sakhalecha	Javad, Post Javad, Distt. Mandasaur, M.P.
9.	Shankarlal Tiwari	Village & Post Amari, Tehsil Varasconi, Distt. Balaghat, M.P.
10.	Harish Chandra Rishi	Advocate, Place & Post Rajnandgoan, Distt. Durg, M.P.

Place: M.P. Vidhan Sabha Bhavan,
Bhopal.

Date: 1st April, 1972.

Sd./-
Returning Officer,
[No. 318/MP/72.]

एस० प्र० 269 (अ) —निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-सधारण की सूचनार्थ किया जाता है:—

प्रख्यात 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(नियम 10 (1) देखिए)

मध्य प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	कैशो प्रसाद हरिहर प्रसाद	फफडीह, रायपुर, मध्य प्रदेश।
2.	चरण लाल शाहू "ज्योत्स्वी"	एडवोकेट, रायपुर, मध्य प्रदेश।
3.	नन्द किशोर	एडवोकेट, विलासपुर, मध्य प्रदेश।
4.	नन्द किशोर भट्ट	भट्ट मोहला, शाजापुर, मध्य प्रदेश।
5.	भूपेन्द्र कुमार सेठी	बिनोद भवन, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
6.	महेन्द्र बहादुर सिंह	पोस्ट सराय पाली, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश।
7.	विद्यावती	टोरिया हाउस, डाकघर छतरपुर, जिला छतरपुर म० प्र०
8.	विवेन्द्र कुमार शकलेंचा	जाबद, डाकघर जाबद, जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश।
9.	शंकर लाल तिवारी	ग्राम व डाकघर अभाईम तहसील वासकोनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।
10.	हरिश्चन्द्र ऋषि	एडवोकेट, गांव डाकघर, राजनन्द गांव जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश

स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल

ह० रिटर्निंग ऑफिसर

तारीख : 1 अप्रैल, 1972

[सं० 318/म० प्र०/72]

S.O. 270(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly,

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Om Parkash	44, Hotel Metropole, The Mall, Simla-1.
2.	Jagan Nath	Village & P.O. Charatgarh, Tehsil Una, District Kangra (H.P.)

Place: Metropole Hotel Building,
Simla-1.

Date - 1-4-1972.

(Sd.) L. HMINGLIANA TOCHHAWNG,
Returning Officer.

[No.-318/HP/72.]

एस० नो० 270 (ई).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम, (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचना के लिए किया जाता है:—

प्रारूप 7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिए]

हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्याक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	श्रीम प्रकाश	44, होटल मेट्रोपोल, दि माल, शिमला-1
2.	जगन नाथ	ग्राम व डाकघर चरतगढ़, तहसील ऊना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
स्थान : मेट्रोपोल होटल बिल्डिंग, शिमला-1		(ह०) एल० हमिंगलियाना तोछावंग
तारीख : 1-4-1972		रिटर्निंग आफिसर,
		[सं० 318/हि० प्र० 72]

S.O. 271(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information:—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Haryana Legislative Assembly

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Krishan Kant	Bazar Khazanchian, Hissar.
2.	Jai Singh	V. & P.O. Manana Teh, Panipat, Distt. Karnal.
3.	Devi Lal	V. & P. O. Chautala, Teh. Dabwali, Distt. Hissar.
4.	Ranbir Singh	V. & P. O. Sanghi, Teh. & Distt. Rohtak.

Place: Haryana Vidhan Sabha
Secretariat, Vidhan Bhawan,
Chandigarh.

Sd/- RAJ KUMAR MALHOTRA,
Returning Officer.

Date: 1st April, 1972.

[No. 318/HR/72]

एस० प्रो० 271 (प्र).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनार्थ किया जाता है:—

प्रकृ 7-ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम, 10 (1) देखिए]

हरयाणा की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	कृष्ण कान्त	बाजार खजानचियान, हिसार ।
2.	जय सिंह	ग्राम व डाकघर मनाना, तहसील पानीपत, जिला करनाल ।
3.	देवी लाल	ग्राम व डाकघर चौटला, तहसील डबवाली, जिला हिसार ।
4.	रनबीर सिंह	ग्राम व डाकघर संधी, तहसील व जिला रोहतक ।

स्थान : हरयाणा विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, चण्डीगढ़ । (ह०) राजकुमार मल्होत्रा,
सारीख : 1 अप्रैल, 1972 रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० 318/हरयाणा/72]

S.O. 272(B).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information:—

FORM 7-B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States Elected by the Members of the Gujarat Legislative Assembly.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Kalanja Ibrahimhai Kasambhai	Nutannagar, Mahuva, Distt. Bhavnagar.
2.	Chayotkar Rajkumar Himnatsinhji Takhtasinhji,	Mansa, Ta. Vijapur, Distt. Mehsana.
3.	Raju V. B.	4/2, Swastik Society, Ahmedabad-9.
4.	Shah Suketu Jayantilal	Keshavbaug, Ambawadi, Ellisbridge, Ahmedabad-7.
5.	(Smt.) Sumitra Gajanan Kulkarni,	5, Government Servants Society, Navarangpura, Ahmedabad-9.
6.	Hariprasad Mulshanker Trivedi	2, Maharashtra Society, Mithakhali, Ellisbridge, Ahmedabad-9.

Place: Gandhinagar.

Date: 1-4-1972

Sd/- Returning Officer,

[No. 318/GJ/72.]

एस० नो० 272 (अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनाएँ किया जाता है :—

प्रकृप 7-ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिये]

गुजरात की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	कलानिया इब्राहिमभाई कासमभाई	नूतन नगर, महुवा, जिला भावनगर ।
2.	चण्देकर राजकुमार हिम्मत सिंह सख्तसिंह जी	मनसा, तहसील बीजापुर, जिला महेसाणा ।
3.	राजू बी० बी०	4/2, स्वस्तिक सोसाइटी, अहमदाबाद-9 ।
4.	शाह सुकैनु जयन्तीलाल	केशवभोग, अम्बावदी, इलिसत्रिज, अहमदाबाद-71
5.	(श्रीमती) सुमित्रा गजानन कुमकण.	5, गर्वेनमेंट सर्वेयर्स सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9 ।
6.	हमिप्रसाद मूलगंकर त्रिवेदी	2, महात्मा सोसाइटी, मिथानवाली, इलिसत्रिज, अहमदाबाद-9 ।

स्थान : गांधीनगर

ह० रिटनिंग आफिसर,

तारीख : 1-4-1972

[सं० 318/गुजरात/72.]

S.O. 273(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7-B

List of Contesting Candidates

[Sec Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Bihar Legislative Assembly.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Kamal Narain Chaudhary	South Mandiri, G.P.O., Patna-I.
2.	Gunanand Thakur	Vill. Banainiya, P.O. Banainiya, Distt. Saharsa.
3.	Jahanara	Pahan Toli, Vill. Takra, P.O. Dundigara, Ranchi.
4.	Dilkishore Prasad Singh	Vill. & P. O. Murgawan, Distt. Patna.
5.	Bhaiya Ram Munda	Vill. Selda, P.O. Murhu, Distt. Ranchi.
6.	Bhupendra N. Mandal	Vill. Belari, Tola-Ranipatti, P.O. Ranipatti, Distt. Saharsa.
7.	Mareshwar P. Singh	Vill. & P. O. Rampurkhoram, Via-Nagra, Distt. Saran.
8.	Yogendra Shama	Vill. & P.O. Rahimpur, Distt. Monghyr.
9.	Rabindranath	Bari Bazar, Monghyr.
10.	Shyam Lal Gupta	Khazanchi Road, P.O., Distt. Patna.
11.	Haribansh Narayan Sinha	Vill. & P.O. Chéchar, Distt. Muzaffarpur.

Place: Patna.
Date: 1-4-1972

Sd/- RAJESHWAR PRASHAD MANDAL,
Asstt. Returning Officer.
[No. 318/BR/72]

एस० प्रो० 273(प्र) — निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनाएँ किया जाता है :—

प्रारूप 7-ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिये]

बिहार की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	कमल नारायण चौधरी	दक्षिण मंदीरि, जी० पी० प्रो०, पटना-1 ।
2.	गुणानन्द ठाकुर	ग्राम बनैनिया, डाकघर बनैनिया, जिला सहरसा ।
3.	जहानारा	पाहन टोली, ग्राम ठाकरा, डाकघर दुन्दीगारा,, रांची ।
4.	दिलकिशोर प्रसाद सिंह	ग्राम ब डाकघर मुरगावन, जिला पटना ।
5.	भैया राम मुन्डा	ग्राम सेल्दा, डाकघर मुरहु, जिला रांची ।
6.	भूपेन्द्र एन० मंडल	ग्राम बेलारी, टोला रानीपट्टी, डाकघर रानीपट्टी, जिला सहरसा ।
7.	महेश्वर प्र० सिंह	ग्राम ब डाकघर रामपुरखोराम, बाया-नागरा, जिला सारण ।
8.	योगेन्द्र शर्मा	ग्राम ब डाकघर रहीमपुर, जिला मुंगेर ।
9.	रबिन्द्र नाथ	बारी बाजार, मुंगेर ।
10.	श्याम लाल गुप्ता	डाकघर खजानची रोड, जिला पटना ।
11.	हरिवंश नारायण सिन्हा	ग्राम ब डाकघर चेधर, जिला मुजफ्फरपुर ।

स्थान : पटना

तारीख : 1—4—72

(ह०) राजेश्वर प्रसाद मंडल,

सहायक रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० 318/बिहार/72]

S.O. 274(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM 7-B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Assam Legislative Assembly

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Bijoy Chandra Bhagavati	7, Duplex Road, New Delhi.
2.	Nabin Chandra Buragohain	Rajbari, Ward No. 2, Jorhat Town.
3.	Nripati Ranjan Choudhury	P. O. Karimganj, Assam.
4.	Ramesh Kalita	P.O. Gauhati tacit Nagar, Saniram Road, Kamrup.

Place: Shillong.

Date: 1-4-1972

Sd./- U.C. TAHBILDAR,
Returning Officer.

[No. 318/AS/72]

एस० नो० 274 (अ)— निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचना के लिए किया जाता है :—

प्रारूप 7—ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिये]

आसाम की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	विजय चन्द्र भगवती	7, डुप्लेक्स रोड, नई दिल्ली।
2.	नवीन चन्द्र बोरगोहिया	राजाबारी, बाई नं० 2, जोरहाट टाउन।
3.	नृपति रंजन चौधरी	डाकघर करीमगंज, आसाम।
4.	रमेश कलिता	डाकघर गोहाटी, लासिट नगर, सनीराम रोड, कामरूप।

स्थान : शिलांग

तारीख : 1—4—72

(ह०) यू० सी० तहबिलदार

रिटनिंग आफिसर।

[सं० 318/आसाम/72]

S.O. 275(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information:

FORM 7-B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Ammanna Raja, Chodgam	241, Maredpalli, Secunderabad-26.
2.	Qasim Ali Abid	H. No. 16-4-725, Chanchalguda, Hyderabad.
3.	Janardhana Reddy Nedurumalli	Vakadu, Gudur Tulak, Nellore District.
4.	Papji Reddi, Bezvada	Buchireddipalem, Nellore District.
5.	Punnalah, Kota	Khammam.
6.	Ranga, N.G.	Nidubrolu, Guntur District.
7.	Rathnabai Sreenivasa Rao, R.	C/o R. Sreenivasa Rao, B.A., B.L., Advocate, Chittoor.
8.	Venkata Rao, Chadalavada	Giri Street, Satyanarayana Puram, Vijayawada-3.
9.	Venkateswara Rao, Ch.	499, Himayatnagar, Hyderabad-29.
10.	Sarvarayudu Chowdary Alluri.	Annadevara Pet, Kovvur Taluk, West Godavari District.

Place: Assembly Buildings,
Hyderabad.

Date: 1st April, 1972.

Sd/- A. SHANKER REDDY,
Returning Officer.

[No. 318/AP/72]

BY ORDER,
A. N. SEN, SECY.

एस० न० 275 (अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचना के लिए किया जाता है :—

प्रारूप 7-ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिए]

आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रमसंख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	अम्माना राजा चौदगम	241, भारेदपल्ली, सिकन्दराबाद-26 ।
2.	कासिम अली अब्दुल	म० न० 16-4-725, चंचालगुडा, हैदराबाद ।
3.	जनार्दन रेड्डी नेडुरुमल्ली	वाकाडु, गुदुर तालुक, जिला नेल्लोर ।
4.	पपी रेड्डी, बैजवाड़ा	बुचीरेड्डीपालेम, जिला नेल्लोर ।
5.	पुन्नय्या, कोटा	खम्माम ।
6.	रंगा, एन० जी०	निदुबरोलू, जिला गुन्टूर ।
7.	रतन बाई श्री निवासराव, आर०	भार्फत आर० श्री निवास राव, बी० ए०, बी० एल० एडवोकेट, धितूर ।
8.	बैकटाराव चादालवाड़ा	गिरि स्ट्रीट, सत्यनारायणपुरम, विजयवाड़ा-3 ।
9.	वैकटेश्वर राव च०	499, हिमायत नगर, हैदराबाद-29 ।
10.	सर्वरायुडू बीधरी अलूरी	अन्नावेवारापेट, कोम्बूर तालुक, जिला पश्चिम गोदावरी ।

स्थान : असेम्बली बिल्डिंग्स, हैदराबाद ।

तारीख : 1 अप्रैल, 1972 ।

(ह०) ए० भंकर रङ्गी,
रिटनिंग आफिसर ।

[सं० 318/आ०प्र०/72]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

